

बिज़नेस लोन ड्रॉप-लाइन ओवरड्राफ़्ट

Version 3 / 2012.02



BUSINESSLOAN
HDFC BANK
We understand your world

आवेदन फॉर्म

अनुक्रमांक

सोर्सिंग के विवरण

CRMNext/LTS नं.		सेल्स प्रमो कोड		लीड जेनरेटर		फिनवेयर ब्रो. कोड	
अगर DSA-DSA का नाम						DSA वेंडर कोड	
सोर्सिंग अधिकारी	SE कोड		TSE कोड		TL कोड		
	SM कोड		टायअप्स का नाम				
उप स्रोत (कृपया एक पर घेरा बनाएं)	LTS / OPN / XSL / ATM / SMS / TEL / PBK / INW / ENW / CCP / NET / NCQ / COP / EML / CHT / CLK / BBZ / OTH						

लोन के विवरण

आवेदन की राशि रु.		लोन की अवधि (महीने)	
मौजूदा लोन की राशि (रु.)		मौजूदा लोन खाता क्र.	
लोन का उद्देश्य	☐ कृषि/फार्मिंग ☐ कृषि की उपज का परिवहन ☐ कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस ☐ कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता ☐ घर की मरम्मत ☐ विवाह ☐ डेरी/सूअर पालन/पोल्ट्री/मधुमक्खी पालन ☐ फूड प्रोसेसिंग युनिट ☐ आढ़तिया/कमिशन एजेंट ☐ व्यापारिक परिसर खरीदना/उसकी मरम्मत ☐ कम्प्यूटर/कार्यालय का फर्निचर ☐ यात्रा ☐ सिंचाई/कटाई/छिड़काव/खरपतवार/ग्रेडिंग/सॉर्टिंग ☐ फर्टिलाइजर, कीटनाशन, बीज इत्यादि के सौदागर ☐ व्यापार का विस्तार ☐ उपकरण/औजार खरीदना/मरम्मत ☐ शिक्षा ☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____		

व्यक्तिगत

शीर्षक	☐ श्री	☐ श्रीमती	☐ डॉ.	☐ अन्य
आवेदक का नाम				
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्मतिथि		लिंग	☐ पुरुष	☐ स्त्री
पैन कार्ड नं.		लिंग	☐ तीसरा लिंग	
वैवाहिक स्थिति	☐ विवाहित	☐ अविवाहित	☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	आर्थिक निर्भर
वर्तमान पता (निवास)				
स्थलचिह्न				
शहर				
राज्य				
देश				
पिन कोड				
संपर्क विवरण	देश का कोड	STD		
देश का कोड		फोन-2		
मोबाइल	☐ कृपया बैंक से एसएमएस द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं			
ई-मेल	☐ कृपया बैंक से ई-मेल द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं			
स्थायी पता (निवास)				
स्थलचिह्न				
शहर				
राज्य				
देश				
पिन कोड				
संपर्क विवरण	देश का कोड	STD		
फोन-1		फोन-2		
मोबाइल	☐ कृपया बैंक से एसएमएस द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं			
धर्म		राष्ट्रियता		
		श्रेणी	☐ SC	☐ ST
		विकलांग	☐ हाँ	☐ नहीं
			☐ OBC	☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____

कृपया अपनी तसवीर यहाँ चिपकाएं और उसपर हस्ताक्षर करें

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी सच्ची और सही है।

ग्राहक के हस्ताक्षर

निजी

वर्तमान पते पर बिताए गए वर्ष

स्थायी पते पर बिताए गए वर्ष

शहर में बिताए गए वर्ष

निवास का प्रकार

☐ अधिकृत

☐ माता-पिता द्वारा अधिकृत

☐ किराए पर

रु. प्रतिमाह

शैक्षणिक योग्यता

☐ स्नातक पूर्व

☐ स्नातक

☐ स्नातकोत्तर

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

स्व नियुक्त व्यवसायी

☐ डॉक्टर

☐ CA

☐ CS

☐ MBA

☐ इंजीनियर

विशेषीकरण (यदि कोई हो)

चुना गया पत्राचार का पता

☐ वर्तमान पता

☐ स्थायी पता

☐ कार्यालय

व्यापार के विवरण

फर्म/कंपनी का नाम

फर्म/कंपनी का पता

स्थलचिह्न

शहर

राज्य

देश

पिन कोड

देश का कोड

संपर्क विवरण

STD

फोन-1

Ext.

फोन-2

Ext.

मोबाइल

☐ बैंक से एसएमएस द्वारा संदेश प्राप्त करने सही का निशान लगाएं

फैक्स नं.

वेबसाइट

W W W

ईमेल

☐ कृपया बैंक से ई-मेल द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं

फर्म/कंपनी

पंजीकृत पता

स्थलचिह्न

शहर

राज्य

देश

पिन कोड

देश का कोड

संपर्क विवरण

STD

फोन-1

Ext.

फोन-2

Ext.

फैक्स नं.

वेबसाइट

W W W

GST No.:

संगठन

☐ सोल प्रॉपराइटरशिप

☐ पार्टनरशिप

☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

व्यापार का प्रकार

☐ उत्पादन

☐ ट्रेडिंग/रीटेलर/होलसेलर

☐ सेवा प्रदाता

उद्योग का प्रकार

☐ रीयल इस्टेट एजेंट/बिल्डर

☐ स्टॉक ब्रोकर

☐ किसान/फार्मर

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

गठन की तिथि

व्यापार में बिताए कुल वर्ष

वर्तमान व्यापार में कुल वर्ष

पैन नं.

व्यापारिक परिसर

☐ अधिकृत

☐ किराए पर

भरा गया किराया

प्रति माह

वित्तीय/आमदनी के विवरण

वार्षिक आमदनी रु.

अतिरिक्त आमदनी रु.

☐ किराए पर

☐ कृषि संबंधी

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

क्या आप एचडीएफसी बैंक के साथ बैंक करते हैं

☐ हाँ

☐ नहीं

ली गयी सेवा का प्रकार	खाता क्र. /कार्ड नं.	लोन की राशि/डिपॉजिट	मासिक किश्त	संबंध की शुरुआत	बैंक का नाम
मौजूदा लोन - 1					
मौजूदा लोन - 2					
मौजूदा लोन - 3					
क्रेडिट कार्ड					
करेंट/सेविंग/टर्म डिपॉजिट					

कृपया अपने प्राथमिक बैंकर को जानकारी दें

बैंक का नाम

शाखा

खाता क्र.

बैंक की शुरुआत

अधिकृत आस्थियाँ

☐ कार

☐ ट्रू लीलर

☐ कम्प्यूटर

☐ संपत्ति

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

कृपया आपके द्वारा वर्तमान में अधिकृत वाहन का विवरण दें

गाड़ी का मेक/मॉडल

निर्माण का वर्ष

रजिस्ट्रेशन नं.

ऋणदाता

निजी संदर्भ

समान शहर में रहने वाले संदर्भों का नाम और पता। एक संदर्भ, अनिवार्य रूप से रिश्तेदार होगा, जो आवेदक के साथ न रहता हो।

नाम	
आवेदक के साथ संबंध	
आवास का पता	
स्थलचिह्न	
शहर	पिन
आवेदक कितने वर्ष से जानता है	
संपर्क विवरण	फोन-1 STD मोबाइल नं
ईमेल ID	

नाम	
आवेदक के साथ संबंध	
आवास का पता	
स्थलचिह्न	
शहर	पिन
आवेदक कितने वर्ष से जानता है	
संपर्क विवरण	फोन-1 STD मोबाइल नं
ईमेल ID	

संबंध

(अन्य बैंकों के साथ आवेदक के संबंध के विवरण)

हाँ	☐	नहीं	☐	संबंध का प्रकार	
(संबंध का विवरण, आवेदक और ऋणदाता बैंक)					
हाँ	☐	नहीं	☐	संबंध का प्रकार	

आवेदक किसी बैंक का डायरेक्टर या एक फर्म है, जो पार्टनर/मैनेजर के रूप में हित रखता है या अन्य बैंकों के डायरेक्टर्स का रिश्तेदार है, जिसमें डायरेक्टर्स के रिश्तेदार पार्टनर या डायरेक्टर के रूप में हित रखते हैं।

आवेदक बैंक का डायरेक्टर/वरिष्ठ अधिकारी/डायरेक्टर/वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार

अतिरिक्त जानकारी

● भुगतान: आपसे लोन के आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए नकद/बेयरर चेक द्वारा कोई भी भुगतान नहीं लिया गया है। ● एचडीएफसी बैंक या उसके किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई भी ऐसी छूट/मुफ्त उपहार या कोई भी ऐसा वादा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो एचडीएफसी बैंक के ऋण अनुबंध में शामिल नहीं है। ● अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा और जारीकरण एचडीएफसी बैंक एक स्वतंत्र निर्णय पर आधारित है और इस संबंध में कोई भी वादा नहीं किया गया है। आवेदन की प्रोसेसिंग और ओवरड्राफ्ट सेवा की उपलब्धता: बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी संबंध ऋण दस्तावेज पूरे करने और जमा किए जाने की तिथि से लगभग 10 कार्य दिवस का समय लगना चाहिए। ब्याज दर और अन्य शुल्क: ब्याज दर _____% प्र.व. है और प्रोसेसिंग शुल्क सेवा की राशि का _____% होगा। सेवा शुरू होने के पहले 6 महीनों के दौरान सेवा को पूर्वसमाप्त करने की अनुमति नहीं है। कथित 6 महीनों के बाद सेवा की पूर्वसमाप्ति उस तिथि पर लागू कुल कार्यकारी ओवरड्राफ्ट सीमा पर 4% का शुल्क लागू होगा - सेवा की पूरी अवधि के दौरान सेवा को आंशिक रूप से बंद करने की अनुमति नहीं है अनुलिपि नो ड्यू सर्टिफिकेट / एनओसी पर शुल्क रु. 250 [●]/- है, बकाया राशियों के विलंबित भुगतान (मूल बकाया राशि का हिस्सा, जो उस महीने के लिए सेवा की कार्यकारी सीमा से अधिक हो और साथ ही अन्य बकाया राशियों) के लिए चूक की तिथि से बकाया राशि पर 24% प्र.व. का शुल्क लागू होगा, चेक/एसआइ/ईसीएस वापसी शुल्क (अस्वीकृति के लिए बैंक के नागरिक और आपराधिक कार्रवाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना): 550/- प्रति घटना, कानूनी और आकस्मिक शुल्क वास्तविक दरों पर। मुद्रांक शुल्क और अन्य शुल्क राज्य के लागू कानून के अनुसार। ● क्रॉस सेल प्रॉडक्ट्स पर शुल्क लागू होंगे, यदि हों, तो।

आपका घोषणापत्र

(1) मेरे/हमारे आवासीय या सौजन्य/व्यापार के पते में कोई भी बदलाव होने पर बैंक को सूचित करेंगे। (2) कृपया आपको प्राप्त राशि इस खाते के किसी भी नाम पर जमा करें। (3) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऋण की राशि का इस्तेमाल सिर्फ बनाए गए उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और इसका इस्तेमाल किसी अनुमान आधारित या गैर-सामाजिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। (4) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ। (5) मैं/हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को मेरे आवेदन के संबंध में कोई भी पत्राचार करने का अधिकार देते हैं। (6) मैं/हम बैंक को मुझे/हमें सूचित किए बिना आवेदन फॉर्म/बैंक से ली गयी सेवाओं के संबंध में पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजों को बैंक की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगी/क्रेडिट व्यूरो/रेंटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, बैंकों/ वित्तीय संस्थानों, सरकारी/नियामक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों के सामने जानकारी के सत्यापन, क्रेडिट जोखिम के विश्लेषण या बैंक को उचित लगने वाले अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए उजागर करने का अधिकार देते हैं। मैं/हम अनुबंध की गोपनीयता और निजता के अधिकार का परिचय करते हैं। (7) मेरा/हमारा आवेदन अस्वीकार हो जाने पर, हमारे पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा और हम स्वीकार करते हैं कि अस्वीकृति का कोई कारण देना आवश्यक नहीं है। (8) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को इस आवेदन के साथ जमा की गयी तसवीरें और दस्तावेज अपने पास रखने का अधिकार है और इन्हें आवेदक को लौटाया नहीं जाएगा। (9) किसी भी अन्य ऋणदाता/बैंक की ओर से मुझपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। (10) मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमें इस लोन से संबंधित नियम व शर्तें प्राप्त हुई हैं और इन्हें बिना किसी सूचना के अंशतः रूप से स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि किसी भी समय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा इन नियमों व शर्तों में बदलाव किया जा सकता है और मैं/हम संशोधित नियमों व शर्तों के अधीन बाध्य रहेंगे। (11) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी सच्ची और सटीक है। ● मैं एचडीएफसी बैंक को UIDAI द्वारा जारी किया गया मेरा आधार नंबर दे रहा/रही हूँ और स्वेच्छा से मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार खाता खोलने/आधार लिंक करने/मेरे सभी खातों/निजी और या गैर-निजी खातों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में एचडीएफसी बैंक के साथ रखे गए संबंध (मौजूदा, नए और भविष्य के) में आधार डालने के उद्देश्य के लिए करने की अनुमति देता/देती हूँ। ● मैं, आधार नंबर का धारक/धारिका, स्वेच्छा से एचडीएफसी बैंक को मेरा आधार नंबर, नाम और उंगलियों की छाप/आयरिस तथा आधार विवरण प्राप्त करने और आधार अधिनियम, 2016 तथा अन्य सभी लागू कानूनों के अनुसार गण्डखस के साथ सत्यापन के लिए उनका इस्तेमाल करने की अनुमति देता/देती हूँ। ● साथ ही मैं एचडीएफसी बैंक को खाता खोलने/मेरे सभी खातों के साथ आधार नंबर को लिंक करने और उसके सत्यापन/ मौजूदा खातों और संबंधों के साथ-साथ भविष्य में निजी और साथ ही गैर-निजी खातों के रूप में एचडीएफसी बैंक के साथ स्थापित संबंधों के लिए मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति देता/देती हूँ।

मैं/हम ☐ बैंक/ ☐ उसके एजेंट की ओर से टेलीफोन/मोबाइल/एसएमएस/ईमेल द्वारा मार्केटिंग के उद्देश्य से जानकारी/सेवाएँ इत्यादि प्राप्त करने की स्वीकृति देते हैं/नहीं देते हैं। मैं/हम मानते और स्वीकार करते हैं कि "डू नॉट कॉल" के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ डायरेक्ट टेलीफोन नंबर (बॉर्ड/कार्यालयों के सामान्य टेलीफोन नंबर/ कॉन्सिरेट्स/ नियोजन नहीं) स्वीकार किए जाएंगे। मुझे/हमें जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के आवेदन की सटीकता की पुष्टि के लिए बैंक से कॉल आ सकता है, मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने घोषणापत्र को पढ़ और समझ लिया है और फॉर्म पर दी गयी सभी जानकारीयाँ सच्ची और सही हैं।

मैंने हमने किसी अन्य बैंक के पास बिजनेस लोन वा ट्रॉपलाइन क्रेडिट के लिए आवेदन नहीं किया है।

आवेदक/सह-आवेदक का नाम स्थान आवेदन की तिथि

आवेदक/सह-आवेदक का हस्ताक्षर

पिछड़े कॉपी के लिए
खास ऑफिस*
अपने इक्रेडिटिव से जानकारी लें
(आरबीआई की परिभाषाएँ)

व्यापारिक फर्म

फर्म/कंपनी का नाम	☐ आवेदक	☐ सह-आवेदक
फर्म/कंपनी का पता		
स्थलचिह्न		
शहर		
राज्य		
देश		
पिन कोड		
देश का कोड		
संपर्क विवरण	STD	फोन-1 फोन-2
मोबाइल		☐ कृपया बैंक से एसएमएस द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं
फैक्स नं.		वेबसाइट W W W
ई-मेल		
☐ कृपया बैंक से ई-मेल द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं		

पंजीकृत पते पर बिताए गए वर्षों की संख्या

संघटन	☐ सोल प्रॉप्राइटरशिप	☐ पार्टनरशिप	☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____)
व्यापार का प्रकार	☐ उत्पादन	☐ ट्रेडिंग	☐ सेवाएँ	
उद्योग का प्रकार				पैन नं.
गठन की तिथि			व्यापार में बिताए गए कुल वर्ष	वर्तमान व्यापार में बिताए गए कुल वर्ष
व्यापारिक परिसर	☐ अधिकृत	☐ किराए पर	भरा गया किराया रु.	प्रति माह

फर्म/कंपनी का पता

स्थलचिह्न

शहर

राज्य

देश

पिन कोड

देश का कोड

संपर्क विवरण

STD

फोन-1

Ext.

फोन-2

Ext.

मोबाइल

☐ कृपया बैंक से एसएमएस द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं

फैक्स नं.

वेबसाइट

W W W

ई-मेल

☐ कृपया बैंक से ई-मेल द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए सही का निशान लगाएं

पंजीकृत पते पर बिताए गए वर्षों की संख्या

संघटन

☐ सोल प्रॉपराइटरशिप

☐ पार्टनरशिप

☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____)

व्यापार का प्रकार

☐ उत्पादन

☐ ट्रेडिंग

☐ सेवाएँ

उद्योग का प्रकार

पैन नं.

गठन की तिथि

व्यापार में बिताए गए कुल वर्ष

वर्तमान व्यापार में बिताए गए कुल वर्ष

व्यापारिक परिसर

☐ अधिकृत

☐ किराए पर

भरा गया किराया रु.

प्रति माह

प्रॉपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर के विवरण

प्रॉपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर के नाम	प्रॉपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर का पता (कृपया शहर, राज्य और ज़िप कोड बताएं)	प्रॉपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर के संपर्क विवरण	उम्र (वर्ष में)	शैक्षणिक पृष्ठभूमि	प्रॉफिट शेयरिंग/ शेयरहोल्डिंग %	कुल अनुभव (वर्ष में)

वित्तीय/आमदनी के विवरण

निम्नल नफा (रु.)

वार्षिक टर्नओवर (रु.)

क्या आप एचडीएफसी बैंक के साथ बैंक करते हैं

☐ हाँ

☐ नहीं

ली गयी सेवा का प्रकार	खाता क्र. /कार्ड नं.	लोन की राशि/डिपॉजिट	मासिक किश्त	संबंध की शुरुआत	बैंक का नाम
मौजूदा लोन - 1					
मौजूदा लोन - 2					
मौजूदा लोन - 3					
क्रेडिट कार्ड					
करंट/सेविंग/टर्म डिपॉजिट					

कृपया अपने प्राथमिक बैंकर को जानकारी दें

बैंक का नाम

शाखा

खाता क्र.

बैंक की शुरुआत

अधिकृत आस्तियाँ

☐ कार

☐ ट्रू व्हीलर

☐ कम्प्यूटर

☐ संपत्ति

☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____

कृपया आपके द्वारा वर्तमान में अधिकृत वाहन का विवरण दें

गाड़ी का मेक/मॉडल

निर्माण का वर्ष

रजिस्ट्रेशन नं.

ऋणदाता

संबंध

(अन्य बैंकों के साथ आवेदक के संबंध के विवरण)

आवेदक किसी बैंक का डायरेक्टर या एक फर्म है, जो पार्टनर/मैनेजर के रूप में हित रखता है या अन्य बैंकों के डायरेक्टर्स का रिश्तेदार है, जिसमें डायरेक्टर्स के रिश्तेदार पार्टनर या डायरेक्टर के रूप में हित रखते हैं।

हाँ ☐ नहीं ☐ संबंध का प्रकार

(संबंध का विवरण, आवेदक और ऋणदाता बैंक)

आवेदक बैंक का डायरेक्टर/वरिष्ठ अधिकारी/डायरेक्टर/वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार

हाँ ☐ नहीं ☐ संबंध का प्रकार

अतिरिक्त जानकारी

● भुगतान: आपसे लोन के आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए नकद/बेयर चेक द्वारा कोई भी भुगतान नहीं लिया गया है। ● एचडीएफसी बैंक या उसके किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई भी ऐसी छूट/मुफ्त उपहार या कोई भी ऐसा वादा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो एचडीएफसी बैंक के ऋण अनुबंध में शामिल नहीं है। ● अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा और जारीकरण एचडीएफसी बैंक एक स्वतंत्र निर्णय पर आधारित है और इस संबंध में कोई भी वादा नहीं किया गया है। आवेदन की प्रोसेसिंग और ओवरड्राफ्ट सेवा की उपलब्धता: बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी संबंधित ऋण दस्तावेज पूरे करने और जमा किए जाने की तिथि से लगभग 10 कार्य दिवस का समय लगना चाहिए। ब्याज दर और अन्य शुल्क: ब्याज दर _____% प्र.व. है और प्रोसेसिंग शुल्क सेवा की राशि का _____% होगा। सेवा शुरू होने के पहले 6 महीनों के दौरान सेवा को पूर्वसमाप्त करने की अनुमति नहीं है। कथित 6 महीनों के बाद सेवा को पूर्वसमाप्त उस तिथि पर लागू कुल कार्यकारी ओवरड्राफ्ट सीमा पर 4% का शुल्क लागू होगा - सेवा की पूरी अवधि के दौरान सेवा को आंशिक रूप से बंद करने की अनुमति नहीं है। अनुमति नो ड्यू सर्टिफिकेट / एनओसी पर शुल्क रु. 250 [●] / - है, बकाया राशियों के विलंबित भुगतान (मूल बकाया राशि का हिस्सा, जो उस महीने के लिए सेवा की कार्यकारी सीमा से अधिक हो और साथ ही अन्य बकाया राशियाँ) के लिए चूक की तिथि से बकाया राशि पर 24% प्र.व. का शुल्क लागू होगा, चेक/एसआई/ईसीएस वापसी शुल्क (अस्वीकृति के लिए बैंक के नागरिक और आपराधिक कार्रवाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना): 550/- प्रति घटना, कानूनी और आकस्मिक शुल्क वास्तविक दरों पर। मुद्रांक शुल्क और अन्य शुल्क राज्य के लागू कानून के अनुसार। ● क्रॉस सेल प्रॉडक्ट्स पर शुल्क लागू होंगे, यदि हों, तो।

आपका घोषणापत्र

(1) मेरे/हमारे आवासीय या रोजगार/व्यापार के पते में कोई भी बदलाव होने पर बैंक को सूचित करेंगे। (2) कृपया आपको प्राप्त राशि इस खाते के किसी भी नाम पर जमा करें। (3) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऋण की राशि का इस्तेमाल सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और इसका इस्तेमाल किसी अनुमान आधारित या गैर-सामाजिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। (4) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ। (5) मैं/हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को मेरे आवेदन के संबंध में कोई भी छूट/छाड़ करने का अधिकार देते हैं। (6) मैं/हम बैंक को मुझे/हमें सूचित किए बिना आवेदन फॉर्म/बैंक से ली गयी सेवाओं के संबंध में पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजों को बैंक की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगी/क्रेडिट ब्यूरो/ रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, बैंकों/ वित्तीय संस्थानों, सरकारी/नियामक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों के सामने जानकारी के सत्यापन, क्रेडिट जोखिम के विश्लेषण या बैंक को उचित लगने वाले अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए उजागर करने का अधिकार देते हैं। मैं/हम अनुबंध की गोपनीयता और निजता के अधिकार का परित्याग करते हैं। (7) मेरा/हमारा आवेदन अस्वीकार हो जाने पर, हमारे पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा और हम स्वीकार करते हैं कि अस्वीकृति का कोई कारण देना आवश्यक नहीं है। (8) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को इस आवेदन के साथ जमा की गयी तसवीरें और दस्तावेज अपने पास रखने का अधिकार है और इन्हें आवेदक को लौटाना नहीं जाएगा। (9) किसी भी अन्य ऋणदाता/बैंक की ओर से मुझपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। (10) मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमें इस लोन से संबंधित नियम व शर्तें प्राप्त हुई हैं और इन्हें बिना किसी सूचना के अर्थात् रूप से स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि किसी भी समय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा इन नियमों व शर्तों में बदलाव किया जा सकता है और मैं/हम संशोधित नियमों व शर्तों के अधीन बाध्य रहूँगे। (11) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी सच्ची और सटीक है।

मैं/हम ☐ बैंक / ☐ उसके एजेंट की ओर से टेलीफोन/मोबाइल/एसएमएस/ईमेल द्वारा मार्केटिंग के उद्देश्य से जानकारी/सेवाएँ इत्यादि प्राप्त करने की स्वीकृति देते हूँ/नहीं देते हूँ। मैं/हम मानते और स्वीकार करते हैं कि "डू नॉट कॉल" के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ डायरेक्ट टेलीफोन नंबर (बोर्ड/कार्यालयों के सामान्य टेलीफोन नंबर/ कॉर्पोरेट/ नियोजता नहीं) स्वीकार किए जाएंगे। मुझे/हमें जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के आवेदन की सटीकता की पुष्टि के लिए बैंक से कॉल आ सकता है, मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने घोषणापत्र को पढ़ और समझ लिया है और फॉर्म पर दी गयी सभी जानकारियाँ सच्ची और सही हैं।

मैंने हमने किसी अन्य बैंक के पास बिजनेस लोन या ड्रांपलाइन क्रेडिट के लिए आवेदन नहीं किया है।

आवेदक/सह-आवेदक का नाम _____ स्थान _____ आवेदन की तिथि _____

आवेदक/सह-आवेदक का हस्ताक्षर _____

प्रायोरीटी सेक्टर श्रेणी

अगर आवेदक निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में हैं, तो कृपया खाने में सही का निशान लगाएं

- | | |
|--|---|
| ☐ डायरेक्ट ऐग्री (प्रत्यक्ष कृषि) | : किसान/फार्मर और डेरी, सूअर पालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मवेशियों का चारा, पोल्ट्री का चारा, बागवानी, उर्वरक, कीटनाशक, बीज इत्यादि जैसी खेती और कृषि सहायक गतिविधियाँ। |
| ☐ इन्डायरेक्ट ऐग्री (अप्रत्यक्ष कृषि) | : किसानों को ट्रैक्टर/बोरलव ठेके पर देने वाली सेवा युनिट्स, खेती की मशीनों/कीटनाशकों और उर्वरकों के डीलर्स, खाद्य और कृषि की प्रोसेसिंग युनिट्स, खादी और ग्रामीणोद्योग (KVI) सेक्टर। |
| ☐ रीटेल ट्रेड | : प्राइवेट रीटेल ट्रेडर्स - 20 लाख तक की क्रेडिट लिमिट के साथ / अत्यावश्यक क्मोडिटीज के ट्रेडर्स |
| ☐ छोटा उत्पादन उपक्रम | : लघु उत्पादन उपक्रम प्लांट और मशीनों में रु. 5 करोड़ तक के निवेश वाली मैन्युफैक्चरिंग युनिट्स |
| ☐ सूक्ष्म उत्पादन उपक्रम | : प्लांट और मशीनों में रु. 25 लाख के निवेश तक की मैन्युफैक्चरिंग युनिट्स |
| ☐ लघु सेवा उपक्रम | : सेवा उपक्रम - (पेशेवर और गैर-पेशेवर) - उपकरणों में रु. 2 करोड़ तक का निवेश करने वाले स्व-नियुक्त पेशेवर, छोटे व्यापार, सड़क/पानी परिवहन संचालक, छोटे पैमाने के सेवा और व्यापारिक उद्योग |
| ☐ सूक्ष्म सेवा उपकरण | : सेवा उपक्रम - (पेशेवर और गैर-पेशेवर) - उपकरणों में रु. 10 लाख तक का निवेश करने वाले स्व-नियुक्त पेशेवर, छोटे व्यापार, सड़क/पानी परिवहन संचालक, छोटे पैमाने के सेवा और व्यापारिक उद्योग |
| ☐ शिक्षा | : |

खेती की ज़मीन के विवरण

कृषि की ज़मीन के विवरण: मेरे/हमारे पास _____ में _____

एकड़ तक की खेती की ज़मीन है/हम उसपर खेती करते हैं, जिसके 7/12 दस्तावेज/भू-राजस्व की रसीद की प्रति यहाँ संलग्न है।

DNC

आपकी इच्छा है

(इसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, और अलग से नहीं भेजा जाना चाहिए)

एचडीएफसी बैंक में हम लगातार आपकी ज़रूरतों को समझने और आपको बेहतर सेवा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम आपको कई प्रकार के संचार माध्यमों हमारी प्रॉडक्ट और सेवाओं की श्रेणी की जानकारी देते रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर आधारित है।

अगर आप मार्केटिंग से संबंधित कोई पत्राचार नहीं प्राप्त करना चाहते (ईमेल/एसएमएस/टेलीकॉलिंग) तो नीचे दिया गया फॉर्म भरें।

नाम: _____ पहला नाम _____ मध्य नाम _____ अंतिम नाम _____ हस्ताक्षर: _____
शहर: _____ पिन: _____ दिनांक: _____

आपकी पसंद हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।

नियम व शर्तें: ● आपको आपके खाते का स्टेटमेंट और आपके खाते में लेन-देन से जुड़ी सलाह और सूचना मिलती रहेगी। सिर्फ दिया गया फोन/मोबाइल नंबर/ई-मेल आइडी मार्केटिंग की सूची से बाहर रखा जाएगा। ● कृपया ध्यान दें कि कार्यालय/कोर्पोरेट बोर्ड के नंबर "डू नॉट कॉल" के लिए रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। ● साथ ही आपको आपके "डू नॉट कॉल" रजिस्ट्रेशन के आग्रह की दुबारा पुष्टि करने के लिए हमारी ओर से कॉल आएगा। ● कृपया इसे सक्रिय करने के लिए हमें आग्रह प्रार्थना होने की तिथि से 45 दिनों का समय दें।
सिर्फ बैंक के इस्तेमाल के लिए
सोर्सिंग शाखा का नाम: _____
शाखा कोड: _____ पीबी कोड _____ पीबी के हस्ताक्षर _____
अधिक सहायता के लिए, कृपया support@hdfcbank.com पर मेल करें

उप स्रोत

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ LTS : एलटीएस ब्रांच लीडर्स | ☐ TEL : टेलीसेल्स टीम द्वारा तैयार की गयी लीडर्स | ☐ NET : नेट बैंकिंग लीडर्स | ☐ CLK : क्लिक कैश |
| ☐ OPN : ओपन मार्केट | ☐ PBK : PBK युनिट्स द्वारा तैयार की गयी लीडर्स | ☐ NCQ : ऋण योग्यता नहीं | ☐ BBZ : बैंक बजार लीडर्स |
| ☐ XSL : अन्य वॉटिकल्स से अप्रत्यक्ष बिक्री | ☐ INW : आंतरिक वेबसाइट द्वारा तैयार की गयी लीडर्स | ☐ COP : क्लासिक ऑन फोन | ☐ OTH : अन्य |
| ☐ ATM : एटीएम से लीडर्स | ☐ ENW : बाहरी वेबसाइट द्वारा तैयार की गयी लीडर्स | ☐ EML : ईमेल कैम्पेन लीडर्स | |
| ☐ SMS : मोबाइल मेसेजिंग द्वारा लीडर्स | ☐ CCP : क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम | ☐ CHT : चैट बॉट लीडर्स | |

अभिरुचिपूर्वक पर्व

आवेदक का नाम _____ रसीद का दिनांक और समय _____
आवेदन की तिथि _____ शाखा का कोड _____ बैंक की मुहर / हस्ताक्षर _____
एचडीएफसी बैंक में संपर्क प्रतिनिधि _____ संपर्क नं _____

आपके लोन आवेदन की स्थिति जानने के लिए कृपया ऊपर दिए गए नंबर पर आपके संपर्क व्यक्ति को कॉल करें। आप नीचे दिए गए नंबरों पर फोनबैंकिंग को कॉल कर सकते हैं या आवेदन नंबर बताकर loansupport@hdfcbank.com को लिख सकते हैं।

मुंबई/दिल्ली और एनसीआर/बंगलुरु/चेन्नई/हैदराबाद/अहमदाबाद/पुणे/कोलकाता के लिए 6160 6161. चंडीगढ़/जयपुर/लखनऊ/इंदौर/कोच्चि/पटना/बिहार/झारखंड के लिए 6160 616

आवेदन की स्थिति सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर बताई जाएगी, बशर्ते कि आवेदक बैंक द्वारा सिर्फ आवेदक की ऋण योग्यता जानने के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।



Sr. No.:

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारा आवेदन लेने वाले इक्जैक्युटिव ने

- हमें सूचित किया है लागू ब्याज दर की गणना मासिक रूप से की जाती है
- लोन आवेदन पर बैंक को उचित लगने वाला प्रोसेसिंग शुल्क (वापसी योग्य नहीं) लिया जाएगा।
- इस लोन आवेदन के संबंध में मुझसे/हमसे कोई नकद, बेयरर चेक या इस प्रकार के अन्य उपकरणों से कोई भुगतान नहीं लिया है।
- मुझे/हमें बताया है कि लागू दरों के अनुसार सेवा कर लोन पर देय होगा।
- मुझे बताया है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दस्तावेजों के खोने या प्रामाण्य में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होने।
- मुझे बताया है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को जमा किए गए दस्तावेज/सस्वीरें किसी भी स्थिति में लौटाए नहीं जाएंगे।
- मुझे बताया है कि आवेदन की स्वीकृति एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र निर्णय पर होगी।
- मुझे बताया है कि लोन की राशि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा तय की जाएगी और इस संबंध में मुझसे कोई वादा नहीं किया गया है।
- मुझे बताया है कि सेवा शुरू होने के पहले 6 महीनों के दौरान सेवा को पूर्णसमाप्त करने की अनुमति नहीं है।
- मुझे बताया है कि कथित 6 महीनों के बाद सेवा की पूर्णसमाप्ति उस तिथि पर लागू कुल कार्यकारी ओवरड्राफ्ट सीमा पर 4% का शुल्क लागू होगा।
- मुझे बताया है कि सेवा की पूरी अवधि के दौरान सेवा को आंशिक रूप से बंद करने की अनुमति नहीं है।
- अनुलिपि नो ड्यू सर्टिफिकेट/एनओसी पर शुल्क रु. 250/- है, बकाया राशियों के विलंबित भुगतान (मूल बकाया राशि का हिस्सा, जो उस महीने के लिए सेवा की कार्यकारी सीमा से अधिक हो और साथ ही अन्य बकाया राशियाँ) के लिए चुक की तिथि से बकाया राशि पर _____% प्र.व. का शुल्क लागू होगा, चेक/एसआई/ईसीएस वापसी शुल्क (अस्वीकृति के लिए बैंक के नागरिक और आपराधिक कार्यवाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना): 550/- प्रति घटना, कानूनी और आकस्मिक शुल्क वास्तविक दरों पर। मुद्रांक शुल्क और अन्य शुल्क राज्य के लागू कानून के अनुसार। क्रॉस सेल प्रॉडक्ट्स पर शुल्क लागू होंगे, यदि हो, तो।
- मैं/हम समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मुझे/हमें मेरे/हमारे द्वारा लोन आवेदन पर व्यक्त ई-मेल आइटमी पर स्वागत पत्र भेजेगा।
- मुझे बताया कि स्वागत पत्र और भुगतान कार्यक्रम www.hdfcbank.com पर भी उपलब्ध है और साथ ही "मेटबैंकिंग लॉसिन पेज" पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समझाई।
- मैं/हम आवश्यकता होने पर स्वागत पत्र की एक कालजी प्रति मांग लेंगे।

प्री संवशन दस्तावेज	तही का निशान	दिनांक	DSA का नाम
आवेदन फॉर्म			
फोटोग्राफ (ऊपर हस्ताक्षरित)			
हाल के 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट			DSA का कोड
पिछले 2 वर्षों का ITR आमदनी की गणना/प्रमाणित वित्तीय जानकारी के साथ			
बोर्ड प्रस्ताव/पार्टनरशिप डीड/दस्तावेज पत्र			
टर्नओवर का प्रमाण (हाल की बिक्री/सेवा कर रिटर्न्स)			DSA का टेली. नं.
मौजूदा नौकरी में निरंतरता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
पहचान का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
निवास का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
कार्यालय का प्रमाण (स्पष्ट करें)			DSE का कोड
योग्यता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
बैलेंस ट्रांसफर के लिए लोन अकाउंट स्टेटमेंट/बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप/चुकाना/जारी रखने के मामले			
अन्य दस्तावेज			सेल्स इक्जैक्युटिव का नाम
बिजनेस लोन ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट अनुबंध			
हस्ताक्षर का सत्यापन			
ECS/ऑटो डेबिट आदेश			
अतिनांकित चेक (..... संख्या)			आवेदक को संपर्क करने वाले इक्जैक्युटिव के हस्ताक्षर
पोस्ट डेटेड चेक (..... संख्या)			

आवेदक का नाम _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारा आवेदन लेने वाले इक्जैक्युटिव ने

- हमें सूचित किया है लागू ब्याज दर की गणना मासिक रूप से की जाती है
- लोन आवेदन पर बैंक को उचित लगने वाला प्रोसेसिंग शुल्क (वापसी योग्य नहीं) लिया जाएगा।
- इस लोन आवेदन के संबंध में मुझसे/हमसे कोई नकद, बेयरर चेक या इस प्रकार के अन्य उपकरणों से कोई भुगतान नहीं लिया है।
- मुझे/हमें बताया है कि लागू दरों के अनुसार सेवा कर लोन पर देय होगा।
- मुझे बताया है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दस्तावेजों के खोने या प्रामाण्य में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होने।
- मुझे बताया है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को जमा किए गए दस्तावेज/सस्वीरें किसी भी स्थिति में लौटाए नहीं जाएंगे।
- मुझे बताया है कि आवेदन की स्वीकृति एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र निर्णय पर होगी।
- मुझे बताया है कि लोन की राशि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा तय की जाएगी और इस संबंध में मुझसे कोई वादा नहीं किया गया है।
- मुझे बताया है कि सेवा शुरू होने के पहले 6 महीनों के दौरान सेवा को पूर्णसमाप्त करने की अनुमति नहीं है।
- मुझे बताया है कि कथित 6 महीनों के बाद सेवा की पूर्णसमाप्ति उस तिथि पर लागू कुल कार्यकारी ओवरड्राफ्ट सीमा पर 4% का शुल्क लागू होगा।
- मुझे बताया है कि सेवा की पूरी अवधि के दौरान सेवा को आंशिक रूप से बंद करने की अनुमति नहीं है।
- अनुलिपि नो ड्यू सर्टिफिकेट/एनओसी पर शुल्क रु. 250/- है, बकाया राशियों के विलंबित भुगतान (मूल बकाया राशि का हिस्सा, जो उस महीने के लिए सेवा की कार्यकारी सीमा से अधिक हो और साथ ही अन्य बकाया राशियाँ) के लिए चुक की तिथि से बकाया राशि पर _____% प्र.व. का शुल्क लागू होगा, चेक/एसआई/ईसीएस वापसी शुल्क (अस्वीकृति के लिए बैंक के नागरिक और आपराधिक कार्यवाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना): 550/- प्रति घटना, कानूनी और आकस्मिक शुल्क वास्तविक दरों पर। मुद्रांक शुल्क और अन्य शुल्क राज्य के लागू कानून के अनुसार। क्रॉस सेल प्रॉडक्ट्स पर शुल्क लागू होंगे, यदि हो, तो।
- मैं/हम समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मुझे/हमें मेरे/हमारे द्वारा लोन आवेदन पर व्यक्त ई-मेल आइटमी पर स्वागत पत्र भेजेगा।
- मुझे बताया कि स्वागत पत्र और भुगतान कार्यक्रम www.hdfcbank.com पर भी उपलब्ध है और साथ ही "मेटबैंकिंग लॉसिन पेज" पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समझाई।
- मैं/हम आवश्यकता होने पर स्वागत पत्र की एक कालजी प्रति मांग लेंगे।

प्री संवशन दस्तावेज	तही का निशान	दिनांक	DSA का नाम
आवेदन फॉर्म			
फोटोग्राफ (ऊपर हस्ताक्षरित)			
हाल के 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट			DSA का कोड
पिछले 2 वर्षों का ITR आमदनी की गणना/प्रमाणित वित्तीय जानकारी के साथ			
बोर्ड प्रस्ताव/पार्टनरशिप डीड/दस्तावेज पत्र			
टर्नओवर का प्रमाण (हाल की बिक्री/सेवा कर रिटर्न्स)			DSA का टेली. नं.
मौजूदा नौकरी में निरंतरता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
पहचान का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
निवास का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
कार्यालय का प्रमाण (स्पष्ट करें)			DSE का कोड
योग्यता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
बैलेंस ट्रांसफर के लिए लोन अकाउंट स्टेटमेंट/बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप/चुकाना/जारी रखने के मामले			
अन्य दस्तावेज			सेल्स इक्जैक्युटिव का नाम
बिजनेस लोन ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट अनुबंध			
हस्ताक्षर का सत्यापन			
ECS/ऑटो डेबिट आदेश			
अतिनांकित चेक (..... संख्या)			आवेदक को संपर्क करने वाले इक्जैक्युटिव के हस्ताक्षर
पोस्ट डेटेड चेक (..... संख्या)			

आवेदक का नाम _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज

(घोषणापत्र पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे)



We understand your world

प्रिय ग्राहक

यह एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की ओर से नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ आपके आवेदन फॉर्म की प्राप्ति की पुष्टि के लिए है

पूर्व स्वीकृति दस्तावेज	सही का निशान	दिनांक	किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें
आवेदन फॉर्म			
फोटोग्राफ (ऊपर हस्ताक्षरित)			
हाल के 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट			
आमदनी की गणना/प्रमाणित वित्तीय जानकारी के साथ पिछले 2 वर्षों का ITR			(सेल नं.) पर
बोर्ड का संकल्प/पार्टनरशिप डीड/प्रलेखन पत्र			
टर्नओवर का प्रमाणपत्र (हाल के सेल्स/सेवा कर रिटर्न्स)			
निरंतरता का प्रमाण/व्यापार की निरंतरता का प्रमाण			
पहचान का प्रमाण (स्पष्ट करें)			या (बैंक ऑफिस) में मेरे सहकर्मी से भवदीय,
निवास का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
कार्यालय के स्वामित्व का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
योग्यता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
लोन चुकाने का ट्रैक रेकॉर्ड			(DSA का नाम) के लिए
अन्य दस्तावेज			
बिजनेस लोन ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट अग्रिमेट			
हस्ताक्षर का सत्यापन			
ECS/ ऑटो डेबिट मंडेट			(DSE का नाम)
अदिनांकित चेक (.... संख्या)			
पोस्ट डेटेड चेक (... संख्या)			
अन्य			

महत्वपूर्ण सूचना: कृपया इस लोन आवेदन के संबंध में इक्जैक्युटिव को नकद, बेयरर चेक या ऐसे अन्य उपकरणों से कोई भी भुगतान न करें।

कृपया ध्यान दें:

- लोन के लिए आपके आवेदन को स्वीकार करने का अर्थ आपके लोन को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया जाना नहीं है।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अपने स्वतंत्र निर्णय पर लोन की राशि तय करेंगे।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आवेदक के संबंध में लिए गए दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को आवेदन फॉर्म के साथ जमा की गयी तसवीर और दस्तावेज रखने का अधिकार है और ये आवेदक को लौटाए नहीं जाएंगे।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दस्तावेज खोने या उनकी प्राप्ति में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- अपूर्ण/खराब आवेदन प्रोसेस नहीं किए जाएंगे और इसके कारण होने वाली देरी या अन्य समस्याओं के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होंगे।
- सभी पोस्ट डेटेड और अदिनांकित चेक सिर्फ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज

(घोषणापत्र पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे)



We understand your world

प्रिय ग्राहक

यह एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की ओर से नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ आपके आवेदन फॉर्म की प्राप्ति की पुष्टि के लिए है

पूर्व स्वीकृति दस्तावेज	सही का निशान	दिनांक	किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें
आवेदन फॉर्म			
फोटोग्राफ (ऊपर हस्ताक्षरित)			
हाल के 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट			
आमदनी की गणना/प्रमाणित वित्तीय जानकारी के साथ पिछले 2 वर्षों का ITR			(सेल नं.) पर
बोर्ड का संकल्प/पार्टनरशिप डीड/प्रलेखन पत्र			
टर्नओवर का प्रमाणपत्र (हाल के सेल्स/सेवा कर रिटर्न्स)			
निरंतरता का प्रमाण/व्यापार की निरंतरता का प्रमाण			
पहचान का प्रमाण (स्पष्ट करें)			या (बैंक ऑफिस) में मेरे सहकर्मी से भवदीय,
निवास का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
कार्यालय के स्वामित्व का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
योग्यता का प्रमाण (स्पष्ट करें)			
लोन चुकाने का ट्रैक रेकॉर्ड			(DSA का नाम) के लिए
अन्य दस्तावेज			
बिजनेस लोन ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट अग्रिमेट			
हस्ताक्षर का सत्यापन			
ECS/ ऑटो डेबिट मंडेट			(DSE का नाम)
अदिनांकित चेक (.... संख्या)			
पोस्ट डेटेड चेक (... संख्या)			
अन्य			

महत्वपूर्ण सूचना: कृपया इस लोन आवेदन के संबंध में इक्जैक्युटिव को नकद, बेयरर चेक या ऐसे अन्य उपकरणों से कोई भी भुगतान न करें।

कृपया ध्यान दें:

- लोन के लिए आपके आवेदन को स्वीकार करने का अर्थ आपके लोन को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया जाना नहीं है।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अपने स्वतंत्र निर्णय पर लोन की राशि तय करेंगे।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आवेदक के संबंध में लिए गए दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को आवेदन फॉर्म के साथ जमा की गयी तसवीर और दस्तावेज रखने का अधिकार है और ये आवेदक को लौटाए नहीं जाएंगे।
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दस्तावेज खोने या उनकी प्राप्ति में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- अपूर्ण/खराब आवेदन प्रोसेस नहीं किए जाएंगे और इसके कारण होने वाली देरी या अन्य समस्याओं के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होंगे।
- सभी पोस्ट डेटेड और अदिनांकित चेक सिर्फ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में होंगे।